



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1206]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2005/अग्राहायण 2, 1927

No. 1206]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2005/AGRAHAYANA 2, 1927

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2005

का.आ. 1634(अ).—केन्द्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 7 की उप-धारा

(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 441 (अ), तारीख 13 मई 1998 को, जो भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 21 मई 1998 को प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए उसके स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या (1)	अधिकारी (2)	अधिकारिता (3)
1.	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) नई दिल्ली, के कार्यालय में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)।	संपूर्ण भारत।
2.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), अजमेर	राजस्थान राज्य।
3.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), आसनसोल।	पश्चिमी बंगाल राज्य के बरद्वान, बीरभूम, बांकुरा और पुरुलिया के सिविल जिले।
4.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), अहमदाबाद।	गुजरात राज्य और दादरा, नागर हवेली और दमन तथा दीव संघ राज्य क्षेत्र।
5.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), बंगलोर।	कर्नाटक राज्य
6.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), भुवनेश्वर।	उड़ीसा राज्य
7.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), मुम्बई।	(i) महाराष्ट्र राज्य जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सिविल जिले नहीं हैं :-- नागपुर, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, बुलधाना, जलगांव, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, नांदेड़, परभनी, योत्मा, ओसमानाबाद, लातूर, विड, हिंगोली और वासिम। (ii) गोवा राज्य।

(1)

8. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नागपुर । (i) महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित सिविल जिले :--
नागपुर, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, बुलधाना,
जलगांव, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, नांदेड़, परभनी, योत्माल,
ओसमानाबाद, लातूर, बिड, हिंगोली और वासिम ।
9. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कोलकाता । पश्चिमी बंगाल राज्य (जिसके अर्न्तगत बरद्वान,
बीरभूम, बांकुरा और पुरुलिया सिविल जिले नहीं हैं),
सिक्किम राज्य और अंदमान और निकोबार द्वीप के
संघ राज्य क्षेत्र
10. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कोचीन (i) केरल राज्य
(ii) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप,
(iii) संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी में माहे
11. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) चंडीगढ़ (i) हिमाचल प्रदेश राज्य
(ii) हरियाणा राज्य
(iii) पंजाब राज्य
(iv) जम्मू - कश्मीर राज्य
(v) संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़
12. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) धनबाद झारखंड राज्य के धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा,
रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा, पूर्वी सिंहभूमि,
पश्चिमी सिंहभूमि गिरिडिह, देवघर, सराई केयला
(खिरायना) और जमात्रा के सिविल जिले ।
13. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), पटना बिहार राज्य और झारखंड राज्य के गढ़वा, पलामू,
लातेहर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुर के सिविल
जिले ।
14. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), गुवाहाटी । असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल
प्रदेश और मिजोराम राज्य ।
15. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद । आन्ध्र प्रदेश राज्य और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र का यनम
क्षेत्र ।
16. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), जबलपुर । मध्य प्रदेश राज्य ।
17. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कानपुर । उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ,
गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद,
पीलीभीत, शाहजहानपुर, बदायूं, रामपुर, बागपत और
गौतम बुद्ध नगर के सिविल जिला ।
18. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), चैन्नई । तामिलनाडु राज्य और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र (यनम
और माहे का छोड़कर)
19. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ।
20. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य ।
21. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), देहरादून । उत्तरांचल राज्य और उत्तरप्रदेश राज्य के सहारनपुर
बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर,
बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, शाहजहानपुर, बदायूं,
रामपुर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर के सिविल जिले ।
22. उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), संपूर्ण भारत

[फा. सं. ए-42011/10/2005-सी एण्ड डब्ल्यू एल-II]

के. चन्द्रमौलि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2005

S.O. 1634(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 7 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 441(E) dated the 13th May, 1998, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section(ii), dated the 21st May, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies the officers mentioned in column (1) of the Schedule given below to be the authorities for the purpose of the said subsection for the areas specified in the corresponding entry in column (2) thereof.

SCHEDULE

Serial Number (1)	Officers (2)	Jurisdiction (3)
1. Regional Labour Commissioners (Central) in the office of the Chief Labour Commissioner(Central), New Delhi.		Whole of India.
2. Regional Labour Commissioner(Central), Ajmer.		The State of Rajasthan.
3. Regional Labour Commissioner (Central), Asansol.		The Civil Districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia in the State of West Bengal.
4. Regional Labour Commissioner(Central), Union Ahmedabad.		The State of Gujrat and the Territories of Dadra, Nagar Haveli and Daman and Diu.
5. Regional Labour Commissioner(Central), Bangalore.		The State of Karnataka.
6. Regional Labour Commissioner(Central), Bhubaneswar.		The State of Orissa.
7. Regional Labour commissioner (Central), Mumbai.	(i) The State of Maharashtra excluding the following Civil Districts:- Nagpur, Bhandara, Akola, Amravati, Wardha, Buldhana, Jalgaon, Chandrapur, Gadchiroli, Nanded, Parbhani, Yeotmal, Osmanabad, Latur, Bid, Hingoli and Wasim. (ii) State of Goa.	

8 Regional Labour Commissioners
(Central), Nagpur.

(i) The following Civil Districts of the
State Of Maharashtra:-

Nagpur, Bhandara, Akola, Amravati,
Wardha, Buldhana, Jalgaon,
Chandrapur, Gadchiroli, Nanded,
Parbhani, Yeotmal, Osmanabad,
Latur, Bid, Hingoli and Wasim

9. Regional Labour Commissioner
(Central), Kolkatta.

The State of West Bengal
(excluding the

Civil Districts of Burdwan,
Birbhum, Bankura and
Purulia), The State of
Sikkam and the Union
Territories of Andaman and
Nicobar Islands.

10. Regional Labour Commissioner(Central),
Cochin.

(i) The State of Kerala.

(ii) The Union Territory of
Lakshdweep.

(iii) Mahe in the Union
Territory of Pondicherry.

11. Regional Labour Commissioner(Central),
Chandigarh.

(i) The State of Himachal Pradesh.

(ii) The State of Haryana.

(iii) The State of Punjab

(iv) The State of Jammu and
Kashmir.

(v) The Union Territory of
Chandigarh.

12. Regional Labour Commissioner
(Central), Dhanbad.

The following Civil Districts of
Dhanbad, Bokaro, Hazaribagh,
Kodarma, Ranchi, Lohardaga, Gumla,
Simdega, Chatra, East Singhbhum,
West Singhbhum, Giridih, Deoghar,
Sarai Keala(Kharsanwa) and Jamtara
in the State of Jharkhand.

13. Regional Labour Commissioner
(Central), Patna.

The State of Bihar and the Civil

Districts of Garwah, Palamu,
Latehar, Dumka, Godda,
Sahibganj and Pakur in the
State of Jharkhand.

14. Regional Labour Commissioner
(Central), Guwahati.

The State of Assam, Nagaland,

Meghalaya, Tripura
Manipur, Arunachal Pradesh
and Mizoram.

14. Regional Labour Commissioner (Central), Hyderabad.	The State of Andhra Pradesh, and the Area of Yanam in the Union Territory of Pondicherry.
16. Regional Labour Commissioner(Central), Jabalpur.	The State of Madhya Pradesh.
17. Regional Labour Commissioner(Central), Kanpur.	The State of Uttar Pradesh the civil Districts of Saharanpur, Bijnor Meerut, Ghaziabad, Bulandshahar, Muzaffarnagar, Bareilly, Moradabad, Pilibhit, Shahjahanpur, Badaun, Rampur, Bagpat and Gautam Budh Nagar.
18. Regional Labour Commissioner(Central), Chennai.	The State of Tamil Nadu and the Union Territory of Pondicherry. (except Yanam and Mahe)
19. Regional Labour Commissioner(Central), New Delhi.	The National Capital Territory of Delhi.
20. Regional Labour Commissioner(Central), Raipur.	The State of Chattisgarh.
21. Regional Labour Commissioner (Central), Dehradun.	State of Uttaranchal and Civil districts of Saharanpur, Bijnore, Meerut, Ghaziabad, Bulandshahar, Muzaffarnagar, Bareilly, Moradabad, Pilibhit, Shahajahanpur, Badaun, Rampur, Bagpat and Gautam Budh Nagar of the State of Uttar Pradesh.
22. Deputy Chief Labour Commissioners(Central),	Whole of India
	[F.No. A-42011/10/2005-C & WL-II] K. CHANDRAMOULI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2005

का.आ. 1635(अ).—केन्द्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 7 की उप-धारा

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 442
(अ), तारीख 13 मई 1998 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 21 मई
1998 को प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया

गया है या करने से लोप किया गया है, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, (ऐसे अधिकारी जो श्रम अधिकारी की पंक्ति से नीचे के न हों) उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है और उसके स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उन स्थानीय सीमाओं को परिभाषित करती है जिसके भीतर ऐसा प्रत्येक प्राधिकारी अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा, अर्थात् :--

अनुसूची

क्रम संख्या	अधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) नई दिल्ली, के कार्यालय में सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ।	संपूर्ण भारत ।
2.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), जयपुर और सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), अजमेर क्षेत्र ।	राजस्थान राज्य ।
3.	सहायक श्रम आयुक्त, (केन्द्रीय) बीरभूमि आसनसोल क्षेत्र (केन्द्रीय) ।	पश्चिमी बंगाल राज्य के बांकुरा और पुरुलिया बरद्वान के सिविल जिले ।
4.	सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), अहमदाबाद क्षेत्र ।	गुजरात राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दादरा, नागर हवेली, दमन और दीव ।
5.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, (केन्द्रीय), बेलारी और सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), बंगलौर क्षेत्र ।	कर्नाटक राज्य ।
6.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) राउरकेला और सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), भुवनेश्वर क्षेत्र ।	उड़ीसा राज्य ।
7.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), पुणे और सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), मुंबई क्षेत्र ।	(i) महाराष्ट्र राज्य जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सिविल जिले नहीं हैं :-- नागपुर, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, बुलधाना, जलगांव, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, नांदेड़, परभनी, योत्माल, ओसमानाबाद, लातूर, बिड, हिंगोली और वासिम । (ii) गोवा राज्य ।
8.	सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नागपुर क्षेत्र ।	(i) महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित सिविल जिले :-- नागपुर, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, बुलधाना, जलगांव, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, नांदेड़, परभनी, योत्माल, ओसमानाबाद, लातूर, बिड, हिंगोली और वासिम ।
9.	सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कोलकाता क्षेत्र ।	पश्चिमी बंगाल राज्य (जिसके अन्तर्गत है बर्दवान, बीरभूमि, बांकुरा और पुरुलिया नहीं है), सिक्किम
10.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कोचीन	संघ राज्य क्षेत्र (i) केरल राज्य (ii) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, (iii) संघ राज्य क्षेत्र पांडीचेरी में माहे
11.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) चंडीगढ़	(i) हिमाचल प्रदेश राज्य (ii) हरियाणा राज्य (iii) पंजाब राज्य (iv) जम्मू - कश्मीर राज्य (v) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़
12.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) धनबाद	झारखंड राज्य के धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा, पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि गिरिडिह, देवघर, सराई केयला (खराबना) और जमात्रा के सिविल जिले ।

13.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), पटना	बिहार राज्य और झारखंड राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुर के सिविल जिले।
14.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), गुवाहाटी।	असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य।
15.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद।	आन्ध्र प्रदेश राज्य और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र का यनम क्षेत्र।
16.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), जबलपुर।	मध्य प्रदेश राज्य।
17.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कानपुर।	उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, शाहजहानपुर, बदायूं, रामपुर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर के सिविल जिला।
18.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), चैन्नई।	तमिलनाडु राज्य और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र (यनम और माहे का छोड़कर)
19.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली।	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
20.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), रायपुर।	छत्तीसगढ़ राज्य।
21.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), देहरादून।	उत्तरांचल राज्य और उत्तरप्रदेश राज्य के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, शाहजहानपुर, बदायूं, रामपुर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर के सिविल जिले।
22.	उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय),	संपूर्ण भारत

[फा. सं. ए-42011/10/2005-सी एण्ड डब्ल्यू एल-II]

के. चन्द्रमौलि, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2005

S.O. 1635(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section (7) of **the Equal Remuneration Act, 1976** (25 of 1976) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 442(E), dated 13th May 1998, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section(ii), dated the 21st May, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the officers specified in column (1) of the Schedule given below (being officers not below the rank of Labour officer) to be the authorised for the purpose of the said sub-section and defines the local limits specified in the corresponding entry in column (2) thereof in the local limits within which each such authority shall exercise its jurisdiction, namely:-

SCHEDULE

Serial Number (1)	Officers (2)	Jurisdiction (3)
1.	Assistant Labour Commissioners (Central), in the office of the Chief Labour Commissioner(Central), New Delhi.	Whole of India.
2.	Regional Labour Commissioner(Central), Jaipur and Assistant Labour Commissioners (Central) in Ajmer Region.	The State of Rajasthan

3. Assistant Labour Commissioners(Central) Birbhum, (Central) in Asansol Region.	The Civil Districts of Burdwan, Bankura and Purulia in the State of West Bengal.
4. Assistant Labour Commissioners(Central) in Ahmedabad Region.	The State of Gujrat and Union Territory of Dadra, Nagar Haveli, Daman and Diu.
5. Regional Labour Commissioner (Central) Bellary and Assistant Labour Commissioners (Central) in Bangalore Region	The State of Karnataka
6. Regional Labour Commissioner(Central) Rourkela and Assistant Labour Commissioners (Central) in Bhubaneswar Region.	The State of Orissa
7. Regional Labour Commissioner (Central) Pune and Assistant Labour Commissioners(Central) in Mumbai Region.	(i) The State of Maharashtra excluding the following Civil Districts:- Nagpur, Bhandara, Akola, Amravati, Wardha, Buldhana, Jalgaon, Chandrapur, Gadchiroli, Nanded, Parbhani, Yeotmal, Osmanabad, Latur, Bid, Hingoli and Wasim. (ii) State of Goa.
8. Assistant Labour Commissioners(Central) the State (Central) in Nagpur Region.	(i) The following Civil Districts of of Maharashtra:- Nagpur, Bhandara, Akola, Amravati, Wardha, Buldhana, Jalgaon, Chandrapur, Gadchiroli, Nanded, Parbhani, Yeotmal, Osmanabad, Latur, Bid, Hingoli and Wasim.
9. Assistant Labour Commissioners(Central) (Central) in Kolkatta Region.	The State of West Bengal (excluding the Civil Districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia), The State of Sikkam and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands.
10. Assistant Labour Commissioners(Central) in Cochin Region.	(i) The State of Kerala. (ii) The Union Territory of Lakshdweep. (iii) Mahe in the Union Territory of Pondicherry.

11. Regional Labour Commissioners(Central) Jammu and Assistant Labour Commissioners (Central) in Chandigarh Region	(i) The State of Himachal Pradesh in (ii) The State of Haryana (iii) The State of Punjab. (iv) The State of Jammu and Kashmir. (v) The Union Territory of Chandigarh.
12. Regional Labour Commissioner(Central) Ranchi and Assistant Labour Commissioners (Central) in Dhanbad Region	The following Civil Districts of Jharkhand Dhanbad, Bokaro, Hazirabagh, Kodarma, Ranchi, Lohardaga, Gumla, Simdega, Chatra, East Singhbhum, West Singhbhum, Giridih, Deoghar, Sarai Keala(Kharsanwa) and Jamtara.
13. Assistant Labour Commissioners(Central) (Central) in Patna Region.	The State of Bihar and the Civil Districts of Garwah, Palamu, Latehar, Dumka, Godda, Sahibganj and Pakur in the State of Jharkhand.
14. Assistant Labour Commissioners(Central) (Central) in Guwahati Region.	The State of Assam, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Manipur, Arunachal Pradesh and Mizoram.
15. Assistant Labour Commissioners(Central) in Hyderabad Region.	The State of Andhra Pradesh, and the Area of Yanam in the Union Territory of Pondicherry.
16. Regional Labour Commissioner(Central) Bhopal and Assistant Labour Commissioners(Central) in Jabalpur Region.	The State of Madhya Pradesh.
17. Regional Labour Commissioner(Central) Lucknow and Assistant Labour Commissioners (Central) in Kanpur Region.	The State of Uttar Pradesh excluding the civil Districts of Saharanpur, Bijnor, Meerut, Ghaziabad, Bulandshahar, Muzaffarnagar, Bareilly, Moradabad, Pilibhit, Shahjahanpur, Badaun, Rampur, Bagpat and Gautam Budh Nagar.
18 Assistant Labour Commissioners(Central) In Chennai Region.	The State of Tamil Nadu and the Union Territory of Pondicherry (except Yanam and Mahe)
19 Assistant Labour Commissioners(Central) in Delhi Region.	The National Capital Territory of Delhi.
20. Assistant Labour Commissioners(Central) in Raipur Region.	The State of Chattisgarh.

21. Assistant Labour Commissioners(Central)
(Central) in Dehradun Region

State of Uttaranchal and Civil of
Districts of Saharanpur, Bijnore,
Meerut, Ghaziabad, Bulandshahar,
Muzaffarnagar, Bareilly, Moradabad,
Pilibhit, Shahajahanpur, Badaun,
Rampur, Bagpat and Gautam Budh
Nagar of the State of Uttar Pradesh.

[F. No. A-42011/10/2005-C & WL-II]

K. CHANDRAMOULI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2005

का.आ. 1636(अ).—केन्द्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 443 (अ) तारीख 13 मई, 1998 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 21 मई 1998 को प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को इस बारे में अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, कि क्या उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का नियोजकों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है, निरीक्षक नियुक्त करती है और उसके स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं को ऐसी स्थानीय सीमाओं के रूप में परिभाषित करती है जिसके भीतर निरीक्षक ऐसे अन्वेषण कर सकेंगे ।

अनुसूची

क्रम संख्या (1)	अधिकारी (2)	अधिकारिता (3)
1.	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) नई दिल्ली, के कार्यालय में श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	संपूर्ण भारत ।
2.	श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), अजमेर क्षेत्र ।	राजस्थान राज्य ।
3.	श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), आसनसोल क्षेत्र ।	पश्चिमी बंगाल राज्य के बरद्वान, बीरभूम, बांकुरा और पुरुलिया के सिविल जिले ।
4.	श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), अहमदाबाद क्षेत्र ।	गुजरात राज्य तथा दादरा, नागर हवेली और दमन तथा दीव संघ राज्य क्षेत्र ।
5.	श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), बंगलौर क्षेत्र	कर्नाटक राज्य ।
6.	श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), भुवनेश्वर क्षेत्र ।	उड़ीसा राज्य
7.	श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), मुम्बई क्षेत्र ।	(i) महाराष्ट्र राज्य जिसके अर्न्तगत निम्नलिखित सिविल जिले नहीं हैं :-- नागपुर, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, बुलधाना, जलगांव, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, नांदेड़, परभनी, योत्माल, औरामानाबाद, लातूर, बिड, हिंगोली और वासिम । (ii) गोवा राज्य ।
8.	श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), नागपुर क्षेत्र ।	(i) महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित सिविल जिले :-- नागपुर, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, बुलधाना, जलगांव, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, नांदेड़, परभनी, योत्माल, औरामानाबाद, लातूर, बिड, हिंगोली और वासिम ।
9.	श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) कोलकाता	पश्चिमी बंगाल राज्य (बरद्वान, बीरभूम, बांकुरा और

क्षेत्र।	पुरुलिया में सिविल जिलों को छोड़कर) सिक्किम राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप ।
10. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), कोचीन क्षेत्र।	(i) केरल राज्य (ii) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप (iii) संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी में माहे
11. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), चंडीगढ़ क्षेत्र।	(i) हिमाचल प्रदेश राज्य (ii) हरियाणा राज्य (iii) पंजाब राज्य (iv) जम्मू - कश्मीर राज्य (v) संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़
12. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), धनबाद क्षेत्र ।	बिहार राज्य और झारखंड के धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा, पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि गिरिडिह, देवघर, सराई केला (खसावना) और जामात्रा के सिविल जिले ।
13. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), पटना क्षेत्र ।	बिहार राज्य और झारखंड राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहर, दुमका, गोडडा, साहेबगंज और पाकुर के सिविल जिले।
14. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), गुवाहाटी क्षेत्र ।	असम नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोराम और अरुणाचल प्रदेश राज्य।
15. श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैदराबाद क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश राज्य और संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी का यनम क्षेत्र ।
16. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), जबलपुर क्षेत्र।	मध्य प्रदेश राज्य ।
17. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), कानपुर क्षेत्र ।	उत्तर प्रदेश राज्य जिसके अन्तर्गत सहारनपुर बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, शाहजहानपुर, बदायूं, रामपुर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर के सिविल जिले नहीं हैं ।
18. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), चैन्नई क्षेत्र।	तामिलनाडु राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी (यनम और माहे को छोड़कर)
19. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), दिल्ली क्षेत्र ।	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ।
20. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), रायपुर क्षेत्र।	छत्तीसगढ़ राज्य ।
21. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), देहरादून क्षेत्र।	उत्तरांचल राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, शाहजहानपुर, बदायूं, रामपुर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर के सिविल जिले ।

[फा. सं. ए-42011/10/2005-सी एण्ड डब्ल्यू एल-II]

के. चन्द्रमौलि, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2005

S.O. 1636(E).--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 443(E), dated the 13th May, 1998, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated 21st May, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the persons specified

in column (1) of the Schedule given below to be the inspectors for the purpose making an investigation as to whether the provisions of the said Act or the rules made there under, are being complied with by employers and defines the local limits specified in the corresponding entry in column (2) thereof as the local limits within which the Inspectors may make such investigation.

SCHEDULE		
Serial Number (1)	Officers (2)	Jurisdiction (3)
1. Labour Enforcement Officers (Central) in the office of the Chief Labour Commissioner(Central), New Delhi.		Whole of India.
2. Labour Enforcement Officers (Central) in Ajmer Region.		The State of Rajasthan.
3. Labour Enforcement Officers (Central) (Central) in Asansol Region.		The Civil Districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia in the State of West Bengal.
4. Labour Enforcement Officers (Central) in Ahmedabad region.		The State of Gujrat and Union Territories of Dadra, Nagar Haveli, and Daman and Diu.
5. Labour Enforcement Officers (Central) in Bangalore Region.		The State of Karnataka.
6. Labour Enforcement Officers (Central) in Bhubaneshwar Region.		The State of Orissa.
7. Labour Enforcement Officers (Central) (Central) in Mumbai Region.		(i) The State of Maharashtra excluding the following Civil Districts:- Nagpur, Bhandara, Akola, Amravati, Wardha, Buldhana, Jalgaon, Chandrapur, Gadchiroli, Nanded, Parbhani, Yeotmal, Osmanabad, Latur, Bid, Hingoli and Wasim. (ii) State of Goa.
8. Labour Enforcement Officers (Central) in Nagpur Region.		(i) The following Civil Districts of State Of Maharashtra:- Nagpur, Bhandara, Akola, Amravati, Wardha, Buldhana, Jalgaon, Chandrapur, Gadchiroli, Nanded, Parbhani, Yeotmal, Osmanabad, Latur, Bid, Hingoli and Wasim.

9. Labour Enforcement Officers (Central) (Central) in Kolkatta Region.	The State of West Bengal (excluding the Civil Districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia), The State of Sikkam and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands.
10. Labour Enforcement Officers (Central) in Cochin Region	(i) The State of Kerala. (ii) The Union Territory of Lakshdeep. (iii) Mahe in the Union Territory of Pondicherry.
11. Labour Enforcement Officers (Central) in Chandigarh Region.	(i) The State of Himachal Pradesh. (ii) The State of Haryana. (iii) The State of Punjab (iv) The State of Jammu and Kashmir. (v) The Union Territory of Chandigarh.
12. Labour Enforcement Officers (Central) (Central) in Dhanbad Region.	The following Civil District of Jharkhand, Dhanbad, Bokaro, Hazaribagh, Kodarma, Ranchi, Lohardaga, Gumla, Simdega, Chatra, East Singhbhum, West Singhbhum, Giridih, Deoghar, Sarai Keala (Kharsanwa) and Jamtara.
13. Labour Enforcement Officers (Central) (Central) in Patna Region.	The State of Bihar and the Civil Districts Garwah, Palamu, Latehar, Dumka, Godda, Sahibganj and Pakur in the State of Jharkhand.
14. Labour Enforcement Officers (Central) in Guwahati Region.	The State of Assam, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Manipur, Mizoram and Arunachal Pradesh.
15. Labour Enforcement Officers (Central) in Hyderabad Region.	The State of Andhra Pradesh and And the area of Yanam in the Union Territory of Pondicherry.
16. Labour Enforcement Officers (Central) in Jabalpur Region.	The State of Madhya Pradesh.

17. Labour Enforcement Officers (Central) (Central), Kanpur.	The State of Uttar Pradesh excluding the civil Districts of Saharanpur, Bijnor, Meerut, Ghaziabad, Bulandshahar, Muzaffarnagar, Bareilly, Moradabad, Pilibhit, Shahjahanpur, Badaun, Rampur, Bagpat and Gautam Budh Nagar.
18. Labour Enforcement Officers (Central) in Chennai Region.	The State of Tamil Nadu and the Union Territory of Pondicherry (except Yanam and Mahe)
19. Labour Enforcement Officers (Central) in Delhi Region.	The National Capital Territory of Delhi.
20. Labour Enforcement Officers (Central) in Raipur Region.	The State of Chattisgarh.
21. Labour Enforcement Officers (Central) (Central) in Dehradun Region.	State of Uttaranchal and Civil Districts of Saharanpur, Bijnore, Meerut, Ghaziabad, Bulandshahar, Muzaffarnagar, Bareilly, Moradabad, Pilibhit, Shahajahanpur, Badaun, Rampur, Bagpat and Gautam Budh Nagar of the State of Uttar Pradesh.

[F. No. A-42011/10/2005-C & WL-II]

K. CHANDRAMOULI, Jt. Secy.